

फॉर्म एल-15-ऋण अनुसूची

ऋण

(राशि रुपये करोड़ में)			
	विवरण	मार्च 31, 2026 तक	मार्च 31, 2025 तक
1	प्रतिभूति-वार वर्गीकरण		
	सुरक्षित:		
	(a) संपत्ति के बंधक रखने पर:		
	(aa) भारत में	4,777.77	5,964.63
	(bb) भारत के बाहर	10.07	9.83
	(b) शेयरों, बंधपत्रों, सरकारी प्रतिभूतियाँ आदि पर	-	-
	(c) पॉलिसियों पर ऋण	1,29,334.90	1,26,186.54
	(d) अन्य :		
	(aa) सरकार द्वारा गारंटीकृत	683.29	1,023.38
	(bb) दृष्टिबंधक	74.53	74.61
	अनारक्षित ऋण	949.24	960.96
	संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	(5,982.24)	(6,740.05)
	कुल	1,29,847.56	1,27,479.90
2	उधारकर्ता-वार वर्गीकरण		
	(a) केंद्र और राज्य सरकारें	423.15	610.79
	(b) बैंक और वित्तीय संस्थान	-	-
	(c) सहायक	-	-
	(d) कंपनियाँ	3,767.97	4,937.89
	(e) पॉलिसियों पर ऋण	1,29,334.90	1,26,186.54
	(f) अन्य :		
	बंधक संपत्ति	221.17	244.33
	नगरपालिकाएं	1.31	1.31
	राज्य बिजली बोर्ड / ऊर्जा उत्पादक	199.84	312.40
	सहकारी औद्योगिक सम्पदा	5.40	5.40
	सहकारी आवास समितियाँ	58.90	64.25
	डबल्यूएसबी, एसएफसी, पीटीआर, ओटीएच, एलडीबी आदि	1,817.16	1,857.04
	(g) अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(5,982.24)	(6,740.05)
	कुल	1,29,847.56	1,27,479.90
3	निष्पादन-वार वर्गीकरण		
	(a) वर्गीकृत मानक ऋण		
	(aa) भारत में	1,30,132.66	1,27,803.82
	(bb) भारत के बाहर	231.08	187.68
	मानक ऋणों के लिए प्रावधान	(520.52)	(517.07)
	(b) गैर-मानक ऋण		
	(aa) भारत में	5,457.50	6,218.62
	(bb) भारत के बाहर	8.56	9.83
	गैर-मानक ऋणों के लिए प्रावधान	(5,461.72)	(6,222.98)
	कुल	1,29,847.56	1,27,479.90
4	परिपक्वता-वार वर्गीकरण		
	(a) अल्पावधि	4,496.53	4,473.46
	अल्पावधि के लिए प्रावधान	(4,403.01)	(4,371.36)
	(b) दीर्घावधि	1,31,333.27	1,29,746.49
	दीर्घावधि के लिए प्रावधान	(1,579.23)	(2,368.69)
	कुल	1,29,847.56	1,27,479.90

गैर-निष्पादित ऋणों के लिए प्रावधान			
(राशि रुपये करोड़ में)			
गैर - निष्पादित ऋण	मार्च 31, 2026 तक	मार्च 31, 2025 तक	
ऋण			
उप - मानक	10.17	11.92	
संदिग्ध	7.67	7.56	
हानि	5,448.22	6,208.97	
कुल	5,466.06	6,228.45	
प्रावधान			
उप - मानक	6.34	6.77	
संदिग्ध	7.16	7.25	
हानि	5,448.22	6,208.96	
कुल	5,461.72	6,222.98	

नोट: हिन्दी फॉर्म के किसी भी प्रावधानों में अस्पष्टता होने की स्थिति में अंग्रेजी वर्जन में उल्लेखित प्रावधानों को सही माना जाएगा।